



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26--अप्रैल 1, 2005 (चैत्र 5, 1927)
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26--APRIL 1, 2005 (CHAITRA 5, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 359	भाग II—खण्ड 3 उदाहरण--(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वका को उल्लिखित भी शामिल है) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	पृष्ठ 355
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, रदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	285	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	1	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निम्न न्यायालयों और महादेवा परीक्षण, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के मन्त्रालय और अश्विनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	315
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों को नियुक्तियों, रदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	389	भाग III—खण्ड 2—रेटों का विवरण तथा जारी की गई रेटों और डिवाइसों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं और नोटिस	167
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य व्यक्तियों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*	भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1187
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	93
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वका के आदेश और उल्लिखित आदि भी शामिल हैं)	*	भाग V—अप्रेषण और हिन्दो दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला समुदाय	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*		

आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

511 GI/2004

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	359	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	285	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	1	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.	315*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	389	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	167
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1187
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	93
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws etc. of general character issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 7 मार्च 2005

सं० एम-13011/1/96-प्रशा० IV—इस मंत्रालय की दिनांक 30 नवम्बर, 2004 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए प्रो० पलिन बी० नायक, अर्थशास्त्र प्रोफेसर, क्षेत्रीय विकास अध्ययन केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (अधिसूचना के कम संख्या 5 पर संदर्भाधीन) जिन्होंने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था, के स्थान पर प्रो० अमिताभ कुन्डू, अर्थशास्त्र प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067 को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (रा० प्र० सर्वे० सं०) की शासो परिषद में एक गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया गया है।

अरुण कुमार सक्सेना, संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2005

सं० ई-11011/3/2003-हिन्दी—माननीय वस्त्र मंत्री के निदेशानुसार वस्त्र मंत्रालय के 6 फरवरी, 2004 के समसंख्यक संकल्प द्वारा गठित मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है की इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को आम जनकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुधीर भार्गव, संयुक्त सचिव

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 2005

संकल्प

सं० ई-11011/1/2002-हिन्दी—इस मंत्रालय के दिनांक 18-1-2005 के संकल्प संख्या ई-11011/1/2002-हिन्दी में आंशिक संशोधन करते हुए क्र० सं० 6 के स्थान पर निर्माणाखित प्राविष्टि की जाती है।

क्रम सं०

6. श्री राशोद अल्वी, संसद सदस्य (राज्य सभा)

(i) स्थायी पता : 31, कैनिंग लेन, नई दिल्ली

(ii) स्थायी पता : मोहम्मद काजी सराय 151, डाकघर-चांदपुर, जिला बिजनौर (उत्तर प्रदेश)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, योजना आयोग, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, समिति के सभी सदस्यों, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक और सभी राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रदेशों के प्रशासकों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

स्तुति कक्कड़, संयुक्त सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 3 मार्च, 2005

संकल्प

फा० सं० 2-4/2005-गो० एन०-1—जबकि सरकार ने इस विभाग के संकल्प सं० 2-24/93-गो० एन०- दिनांक 6 जुलाई, 2004 के जरिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) का पुनर्गठन किया है।

और जबकि उक्त संकल्प की मद सं० 5 के अन्तर्गत लोक सभा से चार संसद सदस्य तथा राज्य सभा में दो संसद सदस्य चने जाते थे।

इसलिए अब विधिवत चयन के बाद निम्नलिखित संसद सदस्य केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य होंगे।

लोक सभा

- (i) श्री बासुदेव बर्मन
- (ii) श्री मन्मनाथ कुन्नु
- (iii) श्रीमती प्रतिभा सिंह
- (iv) श्री सीताराम सिंह

राज्य सभा

- (i) श्री एम० पी० अब्दुससमाद समादनी
- (ii) श्री बलवंत उर्फ बाल आपटे

और जबकि प्रो० जीन ड्रेज, सेंटर फॉर डेवलपमेंट इकोनामिक्स, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनामिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय ने बोर्ड की सदस्यता स्वीकार नहीं की है, और उनका अनुरोध स्वीकार कर लिए जाने के कारण वह इसके सदस्य नहीं रह गए हैं।

इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया है कि "नामित सदस्य" की श्रेणी के अन्तर्गत श्रीमती अर्पिता कर्णवर, महासचिव, 'हरि श्री' (सी-1/20, पंडारा पार्क, नई दिल्ली) को सदस्य के रूप में नामित किया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सभी संस्थाओं/संगठनों आदि को सूचनाार्थ भेजी जाए।

च० बालकृष्णन, संयुक्त सचिव

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(पोत-परिवहन-विभाग)

नई दिल्ली दिनांक 28 फरवरी 2005

संकल्प

सं० ई०-11013/3/2004-हिन्दी-उत्काजीन पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 09-04-2001 के संकल्प संख्या ई-11013/5/2000-हिन्दी को अधिकांश करते हुए

भारत सरकार, एतद्वारा, पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत परिवहन विभाग को हिन्दी सलाहकार समिति को तत्काल प्रभाव से पुनर्गठित करती है। इस समिति का गठन, कार्य और इसका कार्यकाल आदि निम्नानुसार होंगे :—

1. गठन

अध्यक्ष

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग-मंत्री

सरकारी सदस्य

सदस्य

1. सचिव (पोत परिवहन)

2. सचिव, राजभाषा विभाग और भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

3. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

5. नौवहन-महानिदेशक, मुम्बई

6. दीपस्तंभ और दीपपोत, महानिदेशक, नोएडा

7. अध्यक्ष, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा

8. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुम्बई

9. अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुम्बई

10. अध्यक्ष, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई

11. अध्यक्ष, कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता

12. अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन न्यास, मुरगांव

13. अध्यक्ष, नवमंगलूर पत्तन न्यास, मंगलूर

14. अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन

15. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टणम

16. मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान-लक्षद्वीप-बन्दरगाह-निर्माण-कार्य, पोर्ट ब्लेयर

सदस्य-सचिव

17. संयुक्त सचिव (पलन और प्रशासन)

गैर सरकारी सदस्य

(क) संसद-सदस्य

संसदीय-कार्य-मंत्रालय द्वारा नामित

सदस्य

18. श्री नवीन जिन्दल,
संसद-सदस्य (लोक-सभा)
जिन्दल हाउस, 6, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली-110011

स्थायी पता :

जिन्दल हाउस, पीपली रोड,
कुरुक्षेत्र-136118 (हरियाणा)

19. श्री हरिसिंह नासारू राठौड़
संसद-सदस्य (लोक-सभा)
150, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
स्थायी पता :
हिजवई नगर, यवतमाल (महाराष्ट्र)

20. श्री देवदास आपटे
संसद-सदस्य (राज्य-सभा)
11ए, अशोक रोड, नई दिल्ली
स्थायी पता :
बधू, पंचायत-कोकडारो,
जिला-राँची (झारखंड)

21. श्रीमती सुखबंस कौर
संसद-सदस्य (राज्य-सभा)
10, अशोक रोड, नई दिल्ली
स्थायी पता :
मकान नं० 276,
ओंकार नगर, गुरदासपुर,
पंजाब

संसदीय-राजभाषा-समिति के प्रतिनिधि

सदस्य

22. श्री सुब्रत बोस,
संसद-सदस्य (लोक-सभा)
15, नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली
स्थायी पता :
1/385, गरिहत रोड,
साउथ जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068

23. श्री चन्द्र कुमार
संसद-सदस्य (लोक-सभा)
हिमाचल-भवन, नई दिल्ली

स्थायी पता :

ग्राम : ढन,

डाकघर : मललाहड़,

तहसील : ज्वाली,

जिला-कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)

(ख) अन्य

केन्द्रीय सचिवालय-हिन्दी-परिषद् के प्रतिनिधि

सदस्य

24. श्री भगवान दास पटैरया,
मुख्य अभियन्ता, केन्द्रीय जल आयोग,
800 (दक्षिण), सेवा-भवन,
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली,
उप-प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय-
हिन्दी-परिषद्
स्थायी पता :
डी-11, सैक्टर-36,
नोएडा-201303

हिन्दी के प्रचार-प्रसार में जुटे अखिल भारतीय स्वैच्छिक
हिन्दी-संगठन, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग के प्रतिनिधि

सदस्य

25. श्री विभूति मिश्र,
प्रधानमंत्री, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन,
12, सम्मेलन-मार्ग,
इलाहाबाद-211003
स्थायी पता :
973/199 ए, सोहबतिया बाग
इलाहाबाद-211006

पोत-परिवहन-विभाग द्वारा नामित

सदस्य

26. श्री बालकवि बैरागी,
पता :
(i) डाकघर-मनसा,
जिला-नीमच-नीमच-458441 (म० प्र०)
(ii) 153/ए-शिक्षक नगर,
नीमच-458441 (म० प्र०)

सदस्य

सदस्य

27. डॉ० देवेश चन्द्र
सी-403, पूर्वाशा अपार्टमेंट्स,
मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091

28. डॉ० (प्रोफेसर) एन० रमन नायर
अभिरामम, सुरभि रोड,
इडुप्पली, डाकघर : कोच्चन-682024 (केरल)

29. डॉ० वीरेन्द्र कुमार दुबे,
1595, नेपथर टाउन,
जबलपुर (मध्य प्रदेश)

राजभाषा-विभाग द्वारा नामित

सदस्य

30. डॉ० धमेन्द्र शास्त्री बोचरे
जे 4/98, द्वितीय तल,
खिड़की एक्सटेंशन,
मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110019

31. श्री एस० एन० सिन्हा,
पोस्ट ऑफिस रोड,
न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी,
पटना-800 013

32. आचार्य रामभूति त्रिपाठी,
2 स्टेट बैंक कॉलोनी,
देवासरोड, उज्जैन (मध्य प्रदेश)

(ग) इस समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे; तथा

(घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता में त्याग-पत्र दे दिए जाने के कारण कोई स्थान खाली हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य, इस समिति के कार्य-काल की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेगा।

IV. सामान्य

इस समिति का मुख्यालय, नई दिल्ली में होगा।

V. यात्रा तथा अन्य भत्ते

इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों को इस समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा-विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय-ज्ञापन सं० 11/20034/4/86-रा० भा० (क-2) में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक-भत्ता दिया जाएगा।

II. कार्य

यह समिति, केन्द्रीय हिन्दी-समिति और राजभाषा-विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग-मंत्रालय पोत-परिवहन-विभाग के सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

III. कार्य-काल

इस समिति का कार्यकाल, सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अन्तर्गत 3 वर्ष का होगा :—

(क) जो संसद-सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद-सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

(ख) जो संसद-सदस्य, संसदीय राजभाषा-समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा-समिति के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति, निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :

राष्ट्रपति-सचिवालय, प्रधानमंत्री का कार्यालय, मंत्रि-मंडल-सचिवालय, संसदीय कार्य-मंत्रालय, लोक-सभा-सचिवालय, राज्य-सभा-सचिवालय, संसदीय राजभाषा-समिति, योजना-आयोग, भारत के नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, लेखा-परीक्षा-निदेशक, केन्द्रीय राजस्व, पोत-परिवहन, सड़क-परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, पोत-परिवहन-विभाग की हिन्दी सलाहकार-समिति के सभी सदस्य और भारत-सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्व-साधारण की सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० के० जैन, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF STATISTICS & PROGRAMME
IMPLEMENTATION**

New Delhi-110001, the 7th March 2005

No. M-13011/1/96-Ad-IV.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 30th November 2004, Prof. Amitabh Kundu, Professor of Economics, Centre for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 has been nominated as a non-official member of the Governing Council of National Sample Survey Organisation (NSSO) in place of Prof. Pulin B. Nayak, Professor of Economics, Delhi University, Delhi (at serial number 5 of the Notification under reference) who had declined the offer.

ARUN KUMAR SAXENA
Jt. Secy.

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi-110011, the 9th March, 2005

No. E. 11011/3/2003-Hindi—As directed by Hon'ble Minister of Textiles, the Hindi Advisory Committee of the Ministry of Textiles constituted vide Resolution of even number dated the February, 2004 is dissolved with immediate effect.

ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R. and all Ministries and Departments of Government of India,

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

SUDHIR BHARGAVA,
Jt. Secy.

**MINISTRY OF AGRO AND RURAL
INDUSTRIES**

New Delhi, the 25th February 2005

RESOLUTION

No. E-11011/1/2002-Hindi :—Making partial amendment in the resolution No. E-11015/8/2002-Hindi, dated 18-1-2005 of this Ministry, the following entries are made in lieu of Sl. No. 6 :—

Sl. No.

6. Shri Raashid Alvi, Member of Parliament (Rajya Sabha)

(i) Local Address : 31, Canning Lane, New Delhi

(ii) Permanent Address : Mohd. Qazi Sarai 151, P. O. Chandpur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.

ORDER

Ordered that each copy of the Resolution be communicated to President's Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Planning Commission, All Ministries/Departments of Government of India, all the Members of the Committee, Ministry of Parliamentary Affairs, Comptroller and Auditor General of India, all State Government and Union Territory Administration.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

STUTI KACKER,
Jt. Secy

**MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
DEVELOPMENT****(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER
EDUCATION)**

New Delhi, the 3rd March, 2005

RESOLUTION

F. No. 2-4/2005-PN-I—Whereas the Government has reconstituted the Central Advisory Board of Education (CABE) vide this Department's Resolution No. 2-24/93-PN-I dated 6th July, 2004.

And whereas under Item No. 5 of the Annexure to the said Resolution, Four Members of Parliament from the Lok Sabha and Two Members of Parliament from the Rajya Sabha, were required to be elected from among the Members of the Parliament.

NOW, Therefore, the following Members of Parliament, having been duly elected, shall be Members of the Central Advisory Board of Education.

LOK SABHA :

- (i) Shri Basudeb Barman
- (ii) Shri Manjunath Kunnur
- (iii) Smt. Pratibha Singh
- (iv) Shri Sitaram Singh

RAJYA SABHA :

- (i) Shri M. P. Abdussamad Samadani
- (ii) Shri Balwant alias Bal Apte

And whereas Prof. Jean Dreze, Central of Development Economics, Delhi School of Economics, University of Delhi, has not been able to accept the Membership of the Board, and on his request being accepted, he shall cease to be a Member thereof.

Further, it has been decided that Ms. Anita Karnavar, General Secretary, 'Hari Shri', (C-I/20, Pandara Park, New Delhi), be nominated as a Member under the category of "Nominated Members".

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development etc. for information.

C. BALAKRISHNAN
Joint Secretary

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(DEPARTMENT OF SHIPPING)

New Delhi, the 28th February 2005

RESOLUTION

No. E-11013/3/2004-Hindi—In supersession of the then Ministry of Shipping Resolution No. E-11013/5/2000-Hindi, dated 9-4-2001, the Government of India, hereby, reconstitutes the Hindi Salakhakar Samiti of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping with immediate effect. The Composition, Functions, Tenure etc. of the Samiti will be as under :

I. COMPOSITION :

Chairman

Minister of Shipping, Road Transport and Highways

Official Members :

Members

1. Secretary (Shipping)
2. Secretary, Department of Official Language and Hindi Adviser to the Government of India

3. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Shipping, Road Transport and Highways
4. Joint Secretary, Department of Official Language
5. Director General of Shipping, Mumbai
6. Director General, Lighthouses and Lightships, Noida
7. Chairman, Inland Waterways Authority of India, Noida
8. Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd. Mumbai
9. Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai
10. Chairman, Chennai Port Trust, Chennai
11. Chairman, Kolkata Port Trust, Kolkata
12. Chairman, Mormugao Port Trust, Mormugao
13. Chairman, New Mangalore Port Trust Mangalore
14. Chairman, Cochin Port Trust, Cochin
15. Chairman and Managing Director, Hindustan Shipyard Ltd. Vishakhapatnam
16. Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadweep Harbour Works, Port Blair

Member Secretary

17. Joint Secretary (Ports and Administration)

Non-Official Members

(A) Members of Parliament

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs :

Members

18. Sh. Naveen Jindal
Member of Parliament (Lok Sabha)
Jindal House,
6, Prithviraj Road, New Delhi-11
Permanent Address :
Jindal House, Pipli Road
Kurukshetra-136118 (Haryana)
19. Sh. Hari Singh Nasaru Rathore
Member of Parliament (Lok Sabha)
150, North Avenue, New Delhi
Permanent Address :
Hijvai Nagar, Yavatmal (Maharashtra)

20. Sh. Devdas Apte
Member of Parliament (Rajya Sabha)
11-A, Ashoka Road, New Delhi
Permanent Address :
Badhu, Panchayat-Kokadaro
District : Ranchi (Jharkhand)

21. Smt. Sukhbans Kaur
Member of Parliament (Rajya Sabha)
10, Ashoka Road, New Delhi
Permanent Address :
House No. 276, Onkar Nagar
Gurdaspur (Punjab)

Representatives of the Committee of the Parliament
on Official Language :

Members

22. Sh. Subrat Bose
Member of Parliament (Lok Sabha)
15, North Avenue, New Delhi
Permanent Address :
1/385, Garihat Road,
South Jodhpur Park,
Kolkata-700068
23. Sh. Chandra Kumar
Member of Parliament (Lok Sabha)
Himachal Bhawan, New Delhi
Permanent Address :
Village : Dhan
P. O. : Mallahad
Tehsil : Jwali
District : Kangra (Himachal Pradesh)

(B) Others

Representative of Kendriya Sachivalaya Hindi
Parishad :

Members

24. Sh. Bhagwan Das Patarayya
Chief Engineer, Central Water Commission,
800 (South) Seva Bhawan,
R.K. Puram
Up Pradhan,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad
Permanent Address :
D-11, Sector-36,
Noida-201303

Representative of Hindi Sahitya Sammelan Prayag,
an all India voluntary Hindi organization engaged
in propagation and publicity of Hindi :

Members

25. Shri Vibhuti Mishra
Pradhan Mantri,
Hindi Sahitya Sammelan,
12, Sammelan Marg,
Allahabad-211003
Permanent Address :
973/199A, Sohbatiya Bagh
Allahabad-211006

Non-Official Members Nominated by the Depart-
ment of Shipping :

Members

26. Sh. Balkavi Bairagi,
153/20, Shikshak Colony,
Neemach-458441
27. Dr. Devesh Chandra,
C-403, Purvasha Apartments,
Mayur Vihar,
Phase-I, Delhi-91
28. Dr. (Prof.) N. Raman Nair,
Abhiraman, Surbhi, Road, Edapally
P. O. Kochi-682024
29. Dr. Virendra Kumar Dube,
1595, Napier Town, Jabalpur,
Madhya Pradesh

Non-Official Members Nominated by the Depart-
ment of Official Language :

30. Dr. Dharmendra Shastri Bocharé
J 4/98, Second Floor, Khirki Extention,
Malviya Nagar, New Delhi-110019
31. Shri S. N. Sinha,
Post Office Road,
New Patliputra Colony, Patna-800013
32. Acharya Ramamurthy Tripathi
2 State Bank Colony,
Devas Road, Ujjain (Madhya Pradesh)

II. FUNCTIONS

The Samiti will advise on the matters relating to the progressive use of Hindi in official work of the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, Department of Shipping in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the guidelines issued by the Department of Official Language in this regard from time to time.

III. TENURE

The tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that :-

- (a) the Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Parliament.
- (b) the members of the Parliament who are the members of the Samiti by Virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the members of the Samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;
- (c) ex-officio members of the Samiti shall continue to be the members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- (d) if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

IV. GENERAL

The Headquarters of the Samiti will be at New Delhi.

V. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Non-Official Members of the Samiti will be paid travelling and other allowances for attending its meetings in accordance with the guidelines contained in the Department of Official Language O.M. No. II/20034/4/86-O. L. (A-2), dated January 22, 1987 and as per prescribed rates and rules of the Government of India as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to the following :-

President's Secretariat, Prime-Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of the Parliament on the Official Language, Planning Commission, Comptroller and Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenue, All members of the Samiti and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. K. JAIN
Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित

एव प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2005

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2005